



संघप्रदेश की पहली महिला कांस्टेबल हुई सेवानिवृत्त

दानह के विभिन्न विभागों से रिटायर हुये 8 कर्मचारी

सिलवासा, 28 नवंबर
संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली
के पहली महिला कांस्टेबल विभिन्न
विभागों में पदस्थ शासकीय कर्मियों
में से आज 8 शासकीय कर्मियों के
सेवानिवृत्त होने पर उन्हें विकास
आयुक्त संदीप कुमार ने सचिवालय
स्थित सभागार में एक आयोजन कर
विदाई दी व उनके सुखद भविष्य
की कामना की। इस अवसर पर
सेवानिवृत्त हुए शासकीय कर्मियों का
शॉल, श्रीफल एवं पुष्पहारों से सम्मान

किया गया। इस दौरान कर्मियों की
कर्तव्यनिष्ठा एवं कार्यालय के प्रति
समर्पण तथा सेवाभावना की प्रशंसा
की गयी। शुक्रवार शाम 5 बजे
सचिवालय में हुये एक कार्यक्रम में
पुलिस विभाग, शिक्षा विभाग, लोक
निर्माण विभाग व स्वास्थ्य विभाग
के आठ कर्मियों को रिटायरमेंट पर
शॉल, श्रीफल एवं पुष्पगुच्छ देकर
सम्मानित किया गया। सेवानिवृत्त
कर्मियों में शिक्षा विभाग से नरोली
सरकारी उच्चतर माध्यमिक

विद्यालय में 30 वर्ष की सेवा देने के
बाद सेवानिवृत्त हुई श्रीमती पदमाबेन
सोलंकी व मांदोनी हाई स्कूल में 36
साल की सेवा के बाद रिटायर हुये
कलक रामभाई बन्साला के अलावा
दादरा नगर हवेली की पहली महिला
कांस्टेबल श्रीमती निर्मलाबेन
महेन्द्रभाई देसाई भी हैं। निर्मलाबेन
को 1992 हेड कांस्टेबल के रूप में
पदोन्नति दी गई थी उन्होंने लगभग
42 साल पुलिस विभाग की सेवा
की। पुलिस विभाग से ही 28 साल

की सेवा के बाद भगवानजी
रणछोड़जी पटेल को भी विदाई दी
गई। विभाग में रेडियो टेक्नीशियन
के रूप में भर्ती हुये भगवानभाई आर
पटेल वर्तमान में पीएसआई थे।
स्वास्थ्य विभाग में 36 वर्ष की सेवा
के बाद कालिया धोड़िया भी आज
सेवानिवृत्त हुये। वहीं मामलतदार
कार्यलय में 38 वर्ष की सेवा करने
के बाद किशोर कुमार गौरी शंकर
पाठक भी आज सेवामुक्त हो गये।
इनके अलावा भी दो अन्य लोगों को

विदाई दी गई।
कार्यक्रम में विकास आयुक्त
संदीप कुमार, जिला समाहर्ता जीएस
मीणा के अलावा संबंधित विभागों
के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।
इस अवसर पर विभागीय
कर्मचारियों अधिकारियों ने अपने सह
कर्मियों को फूल मालाओं से लाद
दिया तथा पुरानी यादों को ताजा
किया। इधर, विभागों से घर पहुंचने
पर परिवार, मित्रों, रिश्तेदारों पड़ोसियों
ने भी उनका जोरदार स्वागत किया।